

प्रेस नोट दिनांक 28-12-2020

शासन द्वारा नामित नोडल पुलिस अधिकारी श्री एन रविन्दर, पुलिस महानिरीक्षक का जनपद सिद्धार्थनगर का 02 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम ।

दिनांक 28-12-2020 को महोदय द्वारा पुलिस लाइन्स स्थित सभागार में श्री मायाराम वर्मा, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर व अन्य उच्चाधिकारीगणों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें किसान संगठनों के संदर्भ में उनकी समस्याओं का समाधान कर उनसे संवाद स्थापित कर अपने गांव/कस्बे में ही रहने के लिए कार्य योजना बनाये जाने, प्रमुख किसान नेताओं की सूची तैयार कर संवाद बनाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किये। किसानों से ग्राम स्तर पर संवाद कर गांव में ही किसानों की समस्याओं का ज्ञापन लेकर स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान करने व विकास एवं अन्य विभागों से जुड़े अधिकारियों को किसानों से संवाद हेतु निर्देशित किये। कोविड के नये स्ट्रेन के खतरे के दृष्टिगत कोविड-19 के गाईड लाइन का पूर्ण रूप से पालन कराया जाय, अवांछित/आपराधिक तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए समुचित सुरक्षा प्रबंध सभी स्थानों पर सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये तथा महोदय द्वारा 14 बिन्दुओं के संबध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये।

महोदय द्वारा थाना कपिलवस्तु व मोहाना थाना का भ्रमण किया गया और वहां पर पुलिस प्रबन्धन का जायजा लिया गया। नोडल पुलिस अधिकारी द्वारा कपिलवस्तु क्षेत्रान्तर्गत भारत-नेपाल सीमाक्षेत्र का भी भ्रमण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

प्रेस नोट दिनांक 28.12.2020

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 28-12-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एकट के अंतर्गत 358 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 104 वाहनों का चालान कर व 01 वाहन सीज कर ₹ 93,400/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 28.12.2020

मिशन शक्ति- नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन

माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत व क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज श्री उमेश शर्मा के निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.12.2020 को उ0नि0 श्री वकील यादव मय टीम के चेकिंग एन्टी रोमियो टीम थाना भवानीगंज द्वारा कार्यवाही के अन्तर्गत थाना क्षेत्र ग्राम परसा जमाल में पहुंचकर राजकीय कन्या इण्टर कालेज परसा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर पर पहुंचकर कालेज में कार्यक्रम के दौरान नारी सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन न0 1090,181,1076.1098,112,108 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बालिकाओं व महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया गया तथा आवश्यक आदेश निर्देश के बारे में बताया गया और अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन व पैदल गश्त सिलोखरा चौहारा , भड़रिया चौहारा , उतरौला बार्डर , चन्द्रदीप घाट बार्डर व कस्बा भवानीगंज में मय थाना फोर्स के साथ किया गया।

कार्यक्रम स्थल

राजकीय कन्या इण्टर कालेज परसा जमाल भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रधानाचार्या - श्रीमती रुपनाती कुमारी

कार्यक्रम में मौजूद पुलिस बल

- 1.प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र कुमार सिंह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2.उ0नि0 वकील यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3.हे0का0 रामशंकर पाण्डेय थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4.का0 राजकमल यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5.म0का0 सुमन मौर्या थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 6.म0का0 प्रिया वर्मा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 7.का0 दिवाकर चौरसिया थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 8.का0 इन्द्रदीप शर्मा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।